

27th February 2023.

National Stock Exchange of India Limited,
“Exchange Plaza”,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051.

BSE Limited,
P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.

Dear Sirs,

Sub.: Advertisement for record date for first and final call on partly paid-up equity shares of the Company – Regulation of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref.: Corrigendum.

This is in continuation to our earlier letter of even dated in the subject matter.

The date of allotment has been inadvertently mentioned as, “31st October 2023”, instead of, “31st October 2022”, in our said forwarding letter only. The date of allotment has been correctly mentioned as, “31st October 2022”, in the copy of the advertisement attached to our said letter.

Kindly take note of the same. We regret the inconvenience caused.

We once again attach herewith the Advertisement in ‘pdf’ format.

This is for your information as also for the information of your members and the public at large.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Suzlon Energy Limited

GEETANJALI
SANTOSH VAIDYA

Geetanjali S.Vaidya,
Company Secretary.

Encl.: As above.

Govt wary of drop in wheat stocks

SANDIP DAS
New Delhi, February 26

THE CONCERNS OVER wheat stocks with the government have resurfaced. The government's wheat procurement drive for 2023-24 marketing year may be hit with mandi rates – prices fetched by farmers – continuing to rule above the minimum support prices even amid early arrivals of new crop. Besides, possible heatwave conditions are posing a threat to the standing crop.

At present the Food Corporation of India (FCI) has wheat stocks of 12.6 million tonne (MT) to 9.5 MT or below by April 1, the lowest since 2017. The buffer for April 1 is 7.4 MT, 27.57 MT for July 1. The MSP for wheat for the current season is ₹2,125/quintal. Wheat procurement usually begins in November and continues for four months. Sources told FCI that the government has called a meeting of key wheat producing states including Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh in the next few weeks too.

"We will be able to procure a substantial quantity of wheat from farmers in the next season. The weather pattern next month and the flowering of the crop would be crucial for eventual output," a food ministry official told FE. To replenish the stock, the FCI and state agencies are seeking to procure 30 MT of wheat in the 2023-24 marketing season (April-June) so that sufficient quantity of grain is supplied to beneficiaries of NFSA.

Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh on Wednesday to plan purchase of grains from farmers. The possibility of lower output and robust demand are likely to keep mandi prices elevated in the coming weeks too.

"We will be able to procure a substantial quantity of wheat from farmers in the next season. The weather pattern next month and the flowering of the crop would be crucial for eventual output," a food ministry official told FE. To replenish the stock, the FCI and state agencies are aiming to procure at least 30 MT of wheat in the 2023-24 marketing season (April-June) so that sufficient quantity of grain is supplied to beneficiaries of NFSA.

Kamath: Digital economy can contribute 25% of GDP by FY29

NOTED BANKER KV KAMATH, who now chairs the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaB-

lion giant by FY29. Currently, the contribution of the digital economy is a low 4%, whereas it is as much as 40% in China.

The government and planners see the economy becoming the third largest in the world by FY29, overtaking Japan, with a

GDP of \$7 trillion from the present \$3.3 trillion. The digital economy - the digital infrastructure, e-commerce and

other digital payments and services segments — can be the country's biggest growth-driver Kamath said. —PTI

SUZLON
POWERING A GREENER TOMORROW

Suzlon Energy Limited

Registered Office: Suzlon, S. Shreeji Society, Near Sri Krishna Complex,
Narvaipura, Akowadi - 380 005, Gujarat, India. Tel: +91 79 8054 5000
Corporate Office: One Earth, Hadasipura, Pune - 411 028, Maharashtra, India
Tel: +91 20 6702 2000; Contact Person: Geetanjali S. Vaidya
Company Secretary & Compliance Officer
E-mail: investor@suzlon.com; Website: www.suzlon.com
Corporate Identity Number: L40100PL11995PLC025447


**NOTICE FOR RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON
PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY**

Notice is hereby given that the Company has fixed **Thursday, 27th March 2023** as the Record Date for the purpose of determining the holders of the partly paid-up equity shares of the Company to whom the call notice will be sent for payment of the first and final call of Rs.2.00 per Rights Equity Share on the outstanding 240,320,00,00, two Hundred Forty Crores and Four Lacs equity shares of the Company having a face value of Rs.2.00 each with Re.1.00 paid-up ("Rights Equity Shares"), which were allotted on 31st October 2022 on a rights basis pursuant to the Letter of Offer dated 28th September 2022 read with addendum dated 10th October 2022.

For Suzlon Energy Limited

Sd/-
Geetanjali S. Vaidya,
Company Secretary

Date: 24th February 2023
Place: Pune

 **pnb** **punjab national bank**
Oriental United Together for the better

HEAD OFFICE, Plot No. 4, Sector - 10, Udhwala, New Delhi - 110075.

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILLFUL DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED AT NEW DELHI ON 15.12.2022.

[N/A Vardraj Cement Limited (Rs. 101.31 Crore)]

CS: Mumbai City / ZS: Mumbai Date of NPA: 31.12.2013

In terms of RBI Master Circular No. DMRB No. CDR 82/2020 of 03/03/2015 dated July 01, 2015, Committee for Identification of Willful Defaulters issued Show Cause Notice to the following parties mentioning the ground(s) on the basis of which they are identified as willful Defaulters:-

- 1. M/s. Vardraj Cement Ltd. (Borrower)
- 2. Mr. Rishi Kamniah Agarwal (Promoter Director)
- 3. Mr. Atul Zadea (Director)
- 4. Mr. Vijay Prakash Sharma (Director)
- 5. Mr. Krishna Gopal Tewariwal (Director)
- 6. M/s ABC Arcane Holdings Pvt. Ltd. (Corporate Guarantor)

7. MBS ABS International PVT. Ltd. (Corporate Guarantors)

The Corporate Guarantors have been given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they are not classified as willful defaulters. In response to the said Show Cause Notice dated 06.08.2019, the Corporate Guarantors (MBS ABS International (Director) submitted representation vide letter dated 12.10.2021. Considering the representation of the early Identification Committee has accorded personal assurance to the Corporate Guarantors by Mr. Krishna Gopal Rao, Chairman of Toshiwin in his personal capacity and deliberated his case.

After considering entire facts on record, submission made by the party and deliberations of the Board of Directors, the Bank decided to reclassify the Corporate Guarantors. On 11.07.2022, it decided to drop the name of corporate guarantors i.e. MBS AGENT Current Holdco Pvt. Ltd and MBS ABS International PVT. Ltd. from the proceeding orders of the Bank. The decision was taken after considering the representations of the Corporate Guarantors and the fact that the Borrower and its above named Directors defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and the said persons, involved in events which may be identified as willful defaulters on the following grounds:-

Capacity to Pay

Borrower/Guarantors have defaulted in meeting their repayment obligations, even though they had sufficient cash flow to service their debt.

Name of Directors/Guarantors Net Means

Sr. Rishi Kamish Agawal	Rs.26.81 Cr
-------------------------	-------------

The Company diverted funds for the tune of Rs.107.37 Crore and spented funds towards various expenses such as:

2. Frequent transactions with companies having common directors -Rs.25.77 Crore paid to these companies, which are shell companies operated on pay advance basis.

3. Excessive expenditure on salaries and honorariums to the directors of MBS AGENT Distributors Pvt. Ltd., an undisclosed interconnected concern of VCL. The amount was not related to the operating business.

4. Excessive expenditure on share capital fund, capital funds for long term purposes. The company has incorporated an overseas branch during the year-2012/13-Rs.13.48 Crores-Khaim-Free Trade Zone, in a tax haven based in UAE. Based on the financial statements of the company, it can be seen that the company has incurred losses of Rs.2.31 Crore. This Branch contributed almost 100% of total revenues reported by the company in FY 2011-12 & FY 2012-13. On the third day of its incorporation viz. 03.04.2012, the company has received Rs.100 Crores from the shareholders. As per the audit report, trade receivable is reduced by only Rs.2.80 Crore.

5. Unsecured loan increased by Rs.41 Crore during the FY 17-18.

6. Increase in the number of subsidiaries.

7. Debentures issued to related parties for Rs.44.29 Crore later converted to equity.

Acordingly, the Identification Committee had issued Reasoned Order On 29.07.2022.

In its said Order, the committee had directed that above named persons are free to make a written representation against the Order of Identification Committee, handwritten by them or their authorized representative to the Review Committee constituted by the MD & CEO of the Bank, if they so desire.

Despite service of the order of the Committee under Identification of Wilful Defaulters as per the said Order, all concerned parties have failed to submit any such representations before the Review Committee till date except person(s) against said order.

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS:

The Review Committee was constituted by the Board of Directors of the Bank and the Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record, in its meeting held on 13.12.2022 concurred with the Order of the Identification Committee dated 29.07.2022.

N o 1 to 5 are responsible for above events of wilful default, which constitute ground for being declared as ‘Wilful Defaulter’ in terms of extant Bank Guidelines.

Cum no objection has been received from the CUC regarding the said N O No. CC/BCC-22/68.0052015-16 dated 01 of 07/2025 and decision of Mr. Adra Gopal Singh (Borrower), Mr. Rishi Kamlesh Agarwal (Promoter Director), Mr. Atul Azad (Director) and Virek Prakash Sharma (Director), Mr. Krishna Gopal Toshniwal (Director)

punjabnational bank
Together for the better

Head Office, Plot No. 4, Sector - 10, DITWAL, New Delhi, India-110002 Date: 09-06-2023

**ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILLFUL DEFAULTERS,
PURSUANT TO PROCEEDINGS INITIATED AT HEAD OFFICE ON 13.02.2022.**

M/S Parsip Impex (Rcs: 277 Crore)

Cs: Thane / Vs: Mumbai Date of NPA: 30.03.2019

In terms of Mr. Messer Committee no. date: No. CMC dated 22/02/2020 to 26/03/2019-16 dated 22/02/2020 and Mr. Messer Committee no. date: No. CMC dated 22/02/2020 to 26/03/2019-16 dated 22/02/2020 Notice dated 07.09.2021 to following persons mentioning the ground(s) on the basis of which they are identified as willful Defaulters -

- 1. M/s. Parsip Impex (Partner)
- 2. Sh. Vinod Gandhi (Partner)
- 3. Sh. Rajiv Kumar (Partner)
- 4. Sh. Tanvi Singh Gupta (Partner)
- 5. Ms. Amish Ashwin Shah (Partner)

The members of the Review Committee in named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, or to make a representation, if they so desire, to the Review Committee. Pursuant to the Show Cause Notice dated 07.09.2021 submitted by the said persons, the Review Committee has taken into consideration the representations made by them and on behalf of M/s Parsip Impex submitted its representative vide letter dated 13.10.2021 keeping in view the representation submitted by the party the Identification Committee had recommended to be declared as willful defaulter. The Review Committee on 25.05.2022 to the borrower and related persons. The said meeting was attended by Sh. Tanvi Singh Gupta in his individual capacity.

The members of the Review Committee on 25.05.2022, after due consideration of all the facts on record, viewed representation submitted by the party and deliberation made by Sh. Tanvi Singh Gupta during the said meeting, observed that contentions raised by the party are not justified and tenable. However, on perusal of the representation submitted, the committee observed that since Sh. Amish Ashwin Shah was not present at the meeting, the proceedings initiated against him were not completed. In view of the above, the proceedings has been initiated on the basis of transaction done during the period 2018-2019, in the name of Mr. Amish Ashwin Shah be dropped from the proceedings of willful defaulters. It was further noted that he was included in the firm after the incidence of diversion of funds has taken place.

Further, the Identification Committee was of view that submission made by the parties in support of their contention that the said person was not involved in the business of the company is not sufficient. As the said person was not involved in the business of the company, the same person's partners involved in payment/repayment obligations to the Bank and the said persons partners in default of default, are to be identified as willful defaulters on the following grounds:-

Diversification of Funds:
Borrower has not routed the sale proceeds through loan account, as the credit statement shows Rs.15.32 Cr against the sales of Rs 15.32 cr for FY 2018-19. Accordingly, the Identification Committee had issued request Order on 18.07.2022. In its said Order, the committee had directed that the above named persons are the true owners of the representation against the Order of Identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of order to the Review Committee headed by MD & CEO of the Bank, if they so desire.

Pursuant to the representation dated 07.07.2022, Sh.Tanvi Singh Gupta vide letter dated 14.09.2022 and the Borrower i.e. M/s Parsip Impex vide letter dated 14.09.2022 have submitted their representation which was placed before the Review Committee for consideration.

[illegible][illegible]

is legally valid.

The above representation submitted by the borrowers and material held on record, it is observed that the objections raised by the borrower are not justified and hence, Therefore, the Review Committee decided to declare the borrower firm a MSME unit and to grant the loan to the borrower on the basis of the MSME unit and the Singh Gupta as valid defaulters on the ground of "Diversion of funds".

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS.

The Review Committee charged by the Government of India, to study the cases of the borrowers of the Bank committed for the diversion of funds, on the basis of the Identification Committee and found that the aforesaid parties, mentioned at serial No.1 to 4 are responsible for above events of wilful default, which constitute as wilful defaulters on the ground of "Diversion of funds".

The Review Committee has taken into consideration the facts and circumstances taken into consideration with the RBI guidelines/Master Key DBR. No. CIC BO 22220-16/2005-16 dated 01/11/2015 and declared MS Parag Impex and M/s. Tej Singh Gupta as wilful defaulters on the ground of "Diversion of funds".

Sd/-
Pankaj Joshi
General Manager (NIGIT)

Sd/-
Atul Kumar Gopal Chaitanya
(Managing Director)

Sd/-
Gurdeep Singh
General Manager



INDIAN
EXPRESS
GROUP



THE FIFTH RAMNATH GOENKA LECTURE

by

BILL GATES

Co-chair & Trustee, Bill & Melinda Gates Foundation,
Philanthropist, Author, Investor & Technology Founder




Presented by



GL BAJAJ
Educational Institutions
Creating Quality Education

FIND YOUR SPARK

speaks on

**Creating an Equal World:
The Power of Innovation**

Followed by a conversation with

ANANT GOENKA
Executive Director
Indian Express Group

March 1, 2023
5.30 p.m. | New Delhi

Co-presented by

 leverage
edu

 **The Indian EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

TENDER CUM AUCTION SALE NOTICE - 29.03.2023						
<p>(INCORPORATION) (a) OF THE COMPANIES INCORPORATED, 1956 AND IN THE STATE OF JHARKHAND PRADESH.</p> <p>A COMPANY INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT UNIT-12, FIRST FLOOR, WING-B, CENTRAL BANK BUILDING, PURA NO. 3, CHANDRASEKHAR PARK II, 86/FLOOR, RAJNAGAR MARG, NEW SWASTHI CHAMBERS, CHENNAI METRO – 400071, MAHARASHTRA.</p>						
<p>The Petitioner/Applicant No. is hereby given to General Public that the Company proposes to make application to the Companies Court under Section 12 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of allotment of Memorandum of Association of the Company in terms of the Resolution passed at the Annual General Meeting held on 30.03.2022 to enable the Company to charge its Registered Office from the State of Maharashtra to the State of Rajasthan.</p> <p>Any person who intends it likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on the MCA-21 portal or by handing over by filing in person copy thereof to be delivered or sent by registered post/hair objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.</p> <p>Registration Office: Plot No. 51, Sector-72 Unit No.6, Rajnagar Marg, New Swasthi Chambers, Chennai Metro – 400071, Maharashtra.</p>						
For and on behalf of the Petitioner Sd/- Ravi Mendem Director Place : Mumbai Date : 27.03.2023						
No.	Sl. No. of Borrower / Co-Borrower Guarantor & Account No.	Details of the properties	Amount outstanding as on date of demand notice	Date of Demand Notice	Reserve Price (Rs.)	Earned Money Deposit (Rs.) 10%
1.	0070301000020 - Mr. Rameshwar Singh Rajnarain Singh & Mrs. Ritika Omprakash Singh	Flat no. A-11, 2nd Floor, Wing B, Central Bank Building, Pura No. 3, 4, Gunde, Tal. Karjat, Dist. Raigad & 47021. Area = 350 Sq. Ft. Boundaries – East: Property of Gaugram Ganjanikar West – Property of Rahul Durrani North – Property of Mahund G. Kandale South – Property of Santhal Gokuladev	Rs. 19,73,630/- + Interest + All other Charges	19.08.2020 24.03.2021 Physical	10.00 Lacs	Rs. 1,00,000/-
	Borrower :- Late Mr. Kuntal Punshotham Dingra through legal heir Mr. Kuntal Punshom Dingra & Mrs. Arti Kuntal Dingra	Flat no. 101, 1st Floor, Block D, Vardaan Apartment, Phase IV, 20/A, Mumbai, Tal. Panvel, Dist.Raigad, Area- 437 Sq.Ft. Boundaries -East-Towards wide Road -West -Holding Plot No.72/8, Tris. North -South -Plot No.10	Rs. 18,64,546/- + Interest + All other Charges	19.08.2020 24.01.2022 Symbolic	26.50 Lac	Rs. 2,65,000/-
	0070223000048 - Borrower :- Mr. Lakshmanum Narai Das & Mrs. Sangita Lakshmi Das	Flat no. 201, 2nd Floor, Blog no. A(2), Sector-72, Unit No. 6, Rajnagar Marg, 412, 43, 44, 44A & 44B, 81 T/5, Village -Vasdevalli Near Vasdevi, Tal. Kopat District Raigad, Area-475 Sq.Ft.(Builtup)	Rs. 17,09,422/- + Interest + all other charges	19.08.2020 24.03.2021 Symbolic	20.99 Lac	Rs. 2,00,900/-
	0070100005507 - Borrower :- Mr. Vijay Shrirang Pawar - Sanyog Handwara Desai	Plot No. 2552 Sub. A Building, West - C-1 Building North - Open Plot South-Open Plot	Rs. 23,44,743/- + Interest + All other Charges	21.08.2021 25.03.2021 Symbolic	37.85 Lac	Rs. 3,78,500/-
	0070100005507 - Borrower :- Mr. Vijay Shrirang Pawar - Sanyog Handwara Desai	"SAISHIRADI" Plot No.63/A, H.No. 114C-203, Shivraj, Shivaji Nagar, Tal.Chikhald, Dist. Ratnagiri Area=2552 Sq. Ft. Boundaries – East – Road – West, N – S. 63/A1/3A, North – S. 63/A 1/4	Rs. 23,44,743/- + Interest + All other Charges	21.08.2021 25.03.2021 Symbolic	37.85 Lac	Rs. 3,78,500/-

For
Advertising in
TENDER PAGES
Contact
JUTENARA PATHI
Mobile No.:
929012015
Landline No.:
67440215

